


मौद्रिक नीति के प्रकार

Types of MP



Neutral
तटस्थ

Hawkish
हॉकिश/Dear/Tight
महंगी

Monetary Policy (मौद्रिक नीति)

Policy Rates (नीति दरें)

- ① Bank Rate
- ② Repo Rate
- ③ MSF
- ④ RRR
- ⑤ SDF

Indirect
Instruments
(अप्रत्यक्ष
उपकरण)

Reserve Ratios (आरक्षित अनुपात)

- ① CRR
- ② SLR

Direct
Instruments
(प्रत्यक्ष
उपकरण)

Non-Conventional Monetary Policy (गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीति)



1. Helicopter Money (हेलीकाप्टर मुद्रा)
2. Quantitative Easing (मात्रात्मक सहजता)
3. Fed Tapering (फेड टेपरिंग)
4. Operation Twist (ऑपरेशन ट्विस्ट) & Switch operation
5. Incremental CRR (वृद्धिशील CRR)
6. Market Stabilisation Scheme (बाजार स्थिरीकरण योजना)
7. Long Term Repo Operation (लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन)

Helicopter Money

Milton Friedman

इसका प्रयोग → केंद्र बैंक → Money Supply ↑

During Recession (MS ↓) → को नियंत्रित

Central Bank → बहुत → (अधिक मात्रा) → Notes छापती है।

यह Fiscal Stimulus का हिस्सा

↓
Public को बांटते।

Quantitative Easing (मात्रात्मक सहजता)

Economy → $MS \uparrow$ करना है।

केंद्र बैंक → Large Quantity (बड़ी मात्रा)

↓
Govt. Securities → Buy

↓
 $MS \uparrow$

Fed Tapering (फेड टेपीरिंग)

QE को
Process को
slow करना

⇓
Federal Reserve
⇓
Slow Down the
Purchasing of GS

Operation Twist

First time → US → 1961 में

India → 2019

→ Long-term Securities (1 yr से अधिक) → Purchase

→ Short-term Securities (Less than Year) → Sell

MS → दीर्घ-कालीन → Low Interest पर
↓
Long-term Loan.

Switch Operation

↓
एक साथ → Short-term Securities

↓
कुल (Purchase)
& LTS → Sell.

CRR $\rightarrow$ 3% — 15%
2006 $\rightarrow$ Min^m & Max^m X

Incremental CRR
(वृद्धिशील CRR)

(अर्थव्यवस्था $\rightarrow$ High Liquidity
 $\downarrow$
Reduce (रुग्)

CRR $\rightarrow$ 100%

16th Sept, 2016 — 11th Nov. 2016

19th May, 2023 — 28th July, 2023 $\rightarrow$ 100%
CRR

OMO	MSS
B & S MS ↑ / MS ↓	only sell MS ↓

2004

Market Stabilization Scheme
(बाजार स्थिरता योजना) } MSS

OMO

↓
Buy & sell
of GS

⇒ Excess Liquidity (अधिक तरलता)
⇒ Sell → GS (only)

SLTRO
TLTRO

(Purchasing
Managers
Index (PMI))

Long-term Repo Operation (LTRO)

2020 → Covid

European Central Bank → 2008 (First)

MS ↑ करने के लिए

सभी Banks को Repo Rate पर
1-3 वर्षों के लिए देना

Administrative Policy (प्रशासनिक नीति)

$AD > AS$

$AS \downarrow$

Speculation
सस्ते दामों में
मंढोगे

Buy &
Sell

Hoarding

1. सट्टा और जमाखोरी पर प्रतिबंध ✓

2. प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण

अनिवार्य वस्तुएं (Basic Needs)

3. बफर स्टॉक का उपयोग

(Using Buffer Stock)


Fixing the Max^m Price

4. निर्यात पर प्रतिबंध ✓

5. घरेलू आपूर्ति के पूरक के लिए आयात

Floor Price $\rightarrow$ Min^m

Price Ceiling $\rightarrow$ Max^m



Buffer Stock $\rightarrow$ FCI
 $\downarrow$
Wheat, Rice,
Pulses

Base Effect (आधार प्रभाव)

CPI → 2012 = 100

WPI → 2011-12

Base Year → 'Year'

2023 → Jan

162

2024 → Jan

184

$$\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100$$